#### SURAJ INDUSTRIES LTD Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791 Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Telephone No: 01970-256414

Date: 25.10.2021

To, The Executive Director BSE Limited Floor 25, P J Towers Dalal Street Mumbai-400001

#### Scrip Code: 526211

#### Subject: <u>Intimation of the publication of Un-audited Financial Results for the quarter</u> ended September 30, 2021

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the newspaper clipping regarding publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2021, published in the following newspaper:

# Financial Express (English) Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

Bhanumathy Ramachandran (Company Secretary)

Encl: As Above

**FE SUNDAY** 

# 17

JAYPEE		for 3130 Equity Shares, Folio No. HLL1955876, No(s) 11606 for 100 shares bearing distinctive	SURAJ INDUSTRIES LTD
INFRATECH	PUBLIC NOTICE NOTICE OF THIRD PARTY CLAIM INVITATION	for 3130 Equity Shares, Folio No. HLL1955876,No(s)11606 for 100 shares bearing distinctiveCertificateNo.5110021,DistinctiveNo(s)1881801-1881900,Folio No. 7589,standing1012464 01-1012495 30ofHINDUS TANin the name(s) ofLt. Surinder Nath Seth in the	CIN: L26943HP1992PLC016791 Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra,
1055 https://www.iii.com/iiii.com/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	My client Aditya Birla Finance Ltd., having	UNILEVER LTD. standing in the name(s) of SUSHILA DAGA has/have been lost or mislaid been lost and the applicant have applied to the	Himachal Pradesh-173212 Corporate Office: F-32/3, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
JAYPEE INFRATECH LIMITED	branch office at D-17, Sector-3, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201301, is in the	and the undersigned has/have applied to the company to issue duplicate Certificate(s) for in lieu thereof, Any person(s) who have claim(s)	Email ID: secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org
CIN: L45203UP2007PLC033119	process of advancing a loan to M/s. KS	the aforesaid shares. Any person who has a claim to respect of the Company's registered office at D 19-20. Parki	Telephone No- 01970-256414 Extract of Un-Audited Standalone Financial Results
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304, U.P.	Trading & Mr. Praveen Gahlot, Mr. Anil Kumar Gahlot, Mrs. Sangeeta Gahlot, Mrs. Sushma	the said shares should lodge such claim with the company at its Registered office within 15 days from the date of this notice failing	for the Quarter and six months ended September 30, 2021
Tel. +91(120) 4609000, Fax: +91(120)4963122 Website: www.jaypeeinfratech.com Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in	Gahlot, & Mrs. Risalo Devi against mortgage of Property bearing No. B-33, (admeasuring	Unilever House, B D Sawant Marg, Chakala, Mumbai Maharashtra 400099 within one share certificate(s) in respect of the said shares	(Rs. In Lacs) Quarter Half year Quarter
NOTICE	200 sq. yds.), out of Khasra No. 934, situated	month from this date else the Company will Name(s) of Claimant(s)	S. Particulars ended ended ended No 30.09.2021 30.09.2021 30.09.2020
In terms of Regulation 29 and 47 of Securities & Exchange Board	in the area of Village Nawada, Colony known as Ram Nagar, Om Vihar, Uttam Nagar, New	Date: 24/10/2021 Name(s) of the shareholder(s)       Date: 24/10/2021       A-104, Shiva Complex, Ganesh         Place: New Delhi       SUSHILA DAGA       Place : New Delhi       Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018	(Un-Audited) (Un-Audited) (Un-audited)
of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)	Delhi who have represented that Mrs. Risola Devi is the absolute owner of the said Property		1         Total income from operations (net)         1,495.96         1,801.59         39.29           2         Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,
Regulations, 2015, notice is hereby given that Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the	by virtue of a Gift Deed registered on	<b>HDFC</b> HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD. Branch: HDFC House, # 3-6-310, Hyderguda Road, Basheerbagh, Hyderabad - 500 029.	Exceptional and/or Extraordinary items) 81.88 85.13 (8.29)
Company for the quarter and half year ended 30th September,	30/09/2021 executed by Mr. Praveen Gahlot and Mr. Anil Kumar Gahlot in her favour	WITH YOU, RIGHT THROUGH Tel: 040-67699000/ 64807999, CIN L70100MH1977PLC019916 - Website: www.hdfc.com	3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 81.88 85.13 (8.29)
2021 will be considered and disseminated on Tuesday, the 2 <sup>nd</sup>	(registered as document No. 20653). If any entity, person, body corporate has any right,	POSSESSION NOTICE	4 Net Profit/(Loss) for the period after tax
November, 2021. Further details may be accessed on the Company's Website i.e.	lien or claim on the said Property, whatsoever	Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the	(after Exceptional and/or Extraordinary items) 81.88 85:13 (8.29)
www.jaypeeinfratech.com and may also be accessed on the	then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 07 days	Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) /	5         Total Comprehensive Income for the period         81.88         85.13         (8.29)           6         Equity Share Capital (Face value of
Stock Exchange's Websites at <u>www.nseindia.com</u> and www.bseindia.com.	of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or	Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till	Bit Strate         Capital (race value of Rs. 10/- each)         865.00         865.00         728.6
For JAYPEE INFRATECH LIMITED	the same have been waived off. No claim shall	the date of payment and / or realisation.           Name of Borrower(s) /         Date of         Detect         Description of Immersible Property (ice) /	7 Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the balance sheet of previous
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)	be entertained in future and my client shall proceed to advance the loan by mortgaging	Legal Heir(s) and Outstanding Dues Demand Possession Secured Asset (s)	year) 0.00 0.00 0.00
Anuj Jain Place : Noida Interim Resolution Professional	the said property.	Legal Representative(s)     Notice	8 Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) for Continuing and Discontinuing
Place : Noida Interim Resolution Professional Date : 23 <sup>rd</sup> October, 2021 IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-	KP Menon & Co. Advocates & Solicitors A-316, 3rd Floor, RG Complex, Mota Khan, Pahar Gani, N.D55	All that the property bearing House on Plot No.1 Part, in Sankar Reddy Rs.2,21,973/- (Borrower) Total aggregating to Total aggregating to	operations ("not annualized)-
P00142/2017-18/10306		Man Enjanda Vankata Da 45 22 664/	a. Basic 0.95 0.97* (0.11)* b. Diluted 0.95 0.97* (0.11)*
		Naveena (Rupees Forty Five Lakhs) 1250 Stt, R.C.C., Ground Floor, situated at "ROSE GARDEN", Rampally, Village, and Grampanchavat	Notes:
Branch Office:	103-104, First Floor, 2E/23,	Loss A/c Nos	<ol> <li>The above results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 23.10.2021 and later on approved by the Board of Directors in their meeting held on</li> </ol>
))=== #== Cont Rank Jhandewalar	Extn, New Delhi -110055	640042832 and One Only) due as on Dounded by: North: Plot No.2, South: Plot No.1 Part, East: Plot No.2 South: Plot No.1 Part, East: Plot No.2 South: Plot No.2 South: Plot No.1 Part, East: Plot No.2 South: Plot No.1 Part, East: Plot No.2 South: Plot No.1 Part, East: Plot No.2 South: Plot No.1 Part, Plot No.1 Pa	23.10.2021.
	<b>1 – 23629210, 23529210,</b> m   <b>CIN</b> : U65922MP1991PLC006427	641091596 31-MAR-2021	<ol> <li>These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the</li> </ol>
(Subsidiary of Central Bask of India) Appendix IV - A [Rule 8(6) AUCTION SALE -		"with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation. However, since the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned herein above have failed to repay the amounts due,	relevant rules issued thereunder under. 3. During the last quarter the Company acquired a bottling unit situated at the premises
Auction Sale Notice for sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconcstr		notice is hereby given to the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned herein above in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC have taken above said mentioned possessions of the immovable properties / secured asset(s)	of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd (RSGSM) at Purani Chungi, Ramganj,
Security Interest Act 2002, read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement)Rules 20		described herein above in exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the	Taragarh Road, TehAjmer, Distt-Ajmer, Rajasthan-305001 for bottling and packaging of alcoholic beverages for RSGSM in terms of the agreement executed with RSGSM. The
and particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable property physical possession of which has been taken by Authorized Officer of Cent Bank Home Finan		dates mentioned above. The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned	company has two business segments- a) Liquor Operations (b) Trading Operations. The Segment reporting is being accordingly made.
is where basis", "As is what is" and "Whatever there is" Basis on 29.11.2021 for recovery of		not to deal with the aforesaid Immovable Property(ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured	4. Previous periods' figures have been regrouped/ re-arranged to make them comparable
secured creditor from the borrower. The Reserve Price and Earnest Money Deposit, descripti in the table given below:-	on of the inimovable property are as mentioned	Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd. Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect	to current period. By order of the Board
S. Name of the Description of Amount outstanding Date	of Date of Reserve Earnest Money	of time available to redeem the secured asset/s.	For Suraj Industries Ltd Sd/-
No.Borrower, Guarantor & File No.Propertyas on date of demand notice (Rs)DemaNo.PropertyNotice (Rs)Notice		Date: 23-OCT-2021 For Housing Development Finance Corporation Ltd. Sd/- Place: Hyderabad Authorised Officer	Place: New Delhi Suraj Prakash Gupta Date: 23.10.2021 Managing Director
	2020 18.03.2021 62,50,000.00 6,25,000.00	Regd. Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020	managing practor
and Kavi Nagar, Ghaziabad UP. + interest and Mrs. Shalini Gupta Boundaries of property: East all other	(Physical)		📕 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Account No. Property No. 130, West: Property expenses – If any		punjab national bank 🏼 📭 पंजाब नैशनल बैंक	Central Bank of India
00603010000072 No. 128, North: 40 FT wide, South: amount deposited)			1911 से आपके लिए "केन्द्रिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
Service Lane 12 FT wide Mr. Varun Sharma House No. 2/468-A-1, Teliwara, <b>Rs. 34.53.472.00</b> 19.04.	2016 09.09.2021 39,16,450.00 3,91,645.00	Circle Sastra Centre (830700), 97, Sonipat Road, Near Mansarovar Hospital, Rohtak, 124 001,	BRANCH OFFICE: 66, JANPATH, NEW DELHI-110001 POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
and Mrs. Deepa Khasara No. 642, Village + interest and all	(Physical)	Tel No. 01262-244836, Email : cs8307@pnb.co.in	Appendix-IV [See Rule - 8(1)]
Sharma Chandrawali, Shahdara, Tesil & other Account No. Distric Delhi -110032. expenses – If any		POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)	Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the
00602080001522 Boundaries of property: East: amount deposited)		Whereas undersigned being the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002	Central Bank of India, Janpath, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets &
Other Property, West: Other Property North: Coli 5 Foot Wide		and in exercise of powers conferred under section 13 read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002	Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred
Property, North: Gali 5 Feet Wide, South : Other Property		issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrowers/guarantors to repay the amount at mentioned against each account within 60 days from the date of	under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest
3. Mr. Ram Kumar and 306, DDA Janta Flat, Third Floor, Rs. 6,12,570.00 06.01.	2020 20.03.2021 6,39,000.00 63,900.00	notices/date of receipt of said notices.	(Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated
Mrs. Saroj Devi Pocket-3, Sector-B-4, Narela, + interest and all	(Physical)	The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantor in particular and the public in general that the undersigned has taken	05/03/2021, Calling upon the Borrower: M/S. VASHNAVI
Account No. Delhi -110040, other 00602070001378 Boundaries of property: East: Flat expenses – If any		page apping of the property depended bareis below is exercise of the powers conferred on him/her under	TRADING, Prop. Sh. Krishan Murari S/o. Puran Singh and
No. 305, West: Flat No. 307, North: amount deposited)		Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account. The	Guarantors: Smt. Shakuntala W/o. Puran Chand & Smt. Mithilesh W/o. Krishan Murari, to repay the amount
Entry, South: Open TERMS & CONDITIONS:- (1) The Auction is being held on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHERE IS"."		Pollower's Angletine shaders executed to transfer to any section (5) of section 15 or the wer' to	mentioned in the notice being Rs.6,97,361/- (Rupees Six Lakh

TERMS & CONDITIONS:- (1) The Auction is being held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS " and "WHATEVER THERE IS" BASIS (2) The secured asset will not be sold below the Reserve Price. (3) The intending purchaser/bidder should submit their bids in the prescribed tender form in a closed envelope separately for each property, with The Earnest Money Deposit (EMD) amount (not below the 10% of Reserve Price) by means of Demand Draft (Nationalised Bank)/RTGS/Online Transfer drawn in favour of Cent Bank Home Finance Ltd. payable at Delhi on or before 29.11.2021 up to 1.00 PM at above address of Cent Bank Home Finance Ltd. Delhi Branch (4) The sealed envelope will be opened by the Authorised Officer at Delhi Branch in the presence of eligible/ available Intending Bidders who have deposited EMD amount Through Demand Draft (Nationalised Bank)/RTGS/Online Transfer to participate in Auction sale or 29.11.2021 at 3.00 PM. (5) To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on the property under sale. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/chain/ effecting the property, prior to submitting their bid. The Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. (6) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property put on auction will be permitted to interested bidders at sites on 22.11.2021 between 12.00 PM to 4.00 PM. (7) The Earnest Money Deposit(EMD) of the successful bidder/highest bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The sale shall be confirmed in favour of the purchaser who has offered the highest sale price in his bid or tender to the Authorised Officer and shall be subject to confirmation by the Secured Creditor. The highest bid will be subject to approval of the secured creditor/Authorised Officer. (8) The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, (inclusive of EMD paid), on the same day or not later than next working day and the balance amount of purchase price payable i.e. 75% of the sale price will be paid to the Authorised Officer on or before 15th day of confirmation of sale by Secured Creditor. In case of default of payment within the period mentioned above all the amount deposited till then shall be forfeited including Earnest money and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or any part of the sum for which it may be subsequently sold. (9) The purchaser shall bear the applicable stamp duties/ additional stamp duty/ transfer charges, fee etc. and also all the statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. owing to anybody. (10) The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone cancel the Auction without assigning any reason thereof. (11) This is also a notice to the Borrower/Guarantor/Property owner of the aforesaid loan in respect of the sale of the above mentioned secured Asset(under SARFAESI Act 2002 (under Rule 8(6). Date: 23.10.2021, Place: Delhi Authorised Officer: Cent Bank Home Finance Limited, New Delhi Branch

.....भरोसे का प्रतीक

पंजाब नैशनल बैंक

The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amount and interest thereon, given below:

Name of the Branch Name of the Account Borrower / Guarantor/	Description of Date of Demand Property Mortgaged Notice Notice Affixed			Amount O/s as per Demand Notice	
(1) Branch Office : Huda Sector-3, Rohtak Mr. Sachin Gupta, Proprietor - M/s Bindal Copy House, and Sh. Bhagwan Dass S/o Sh. Dwarka Dass and Pawan Kumar S/o Sh. Bhagwan Dass	name of Bhagwan Dass S/o S deed no 2983 dated11/07/200 same is bounded as under: Ea	tuated at In Limits Rohtal Sh. Dwarka D 0 registered ist : 150 feet,	dustrial area, k registered in bass vide sale with joint sub r plot no. 61, W	01.06.2021. egistrar Rohtak. and est: 150 feet, plot no	
R/o 64/34, Janta Colony, Rohta	k-124001				
(2) Branch Office : Huda Sector-3, Rohtak M/s Shivam Industries, through its Proprietor Mrs. Shalini Jain, Plot No. 28, IE Kutana, HSIIDC,		tuated at In Limits Rohtal Sh. Dwarka D 0 registered	dustrial area, k registered in Dass vide sale with joint sub r	01.06.2021. egistrar Rohtak. and	

Rohtak-124001 and Ms. same is bounded as under: East : 150 feet, plot no. 61, West: 150 feet, plot no. 63, North: 60 feet, plot no. 55, South: 60 feet, street 40 feet wide. Shalini Jain, Proprietor Shivam Industries, 64/34, Janta Colony, Rohtak - 124001 and Sh. Bhagwan Dass S/o Sh. Dwarka Dass, Pawan Kumar S/o Bhagwan Dass - Guarantor, 64/34, Janta Colony, Rohtak - 124001. Dated: 22.10.2021

Place: Rohtak Authorized Officer, Punjab National Bank

punjab national bank

CIRCLE SASTRA, GHAZIABAD, KJ-13, Kavi Nagar, Ghaziabad-201001, M: 8283810870, Email: cs8228@pnb.co.in

# A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged /charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by Authorised Officer of the Bank/Secured Creditor, will be sold on "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective Borrower(s) and Guarantor(s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

		SCHEDULE OF SALE O	F THE SECURED ASSETS			
	Name of the Branch	(E) Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfeasi Act 2002				
Sr.	Name of the Account	(F) Possession Date u/s 13(4) of Sarfeasi Act 2002 Description of Immovable Propertie		(A) RESERVE PRICE	DATE/ TIME	Details of the encumbrances
No.	Name and Addresses of the	(G) Amount as per Demand Notice	Mortgaged / owner's Name	(B) EMD	OF E-AUCTION	known to the
	Borrower/Guarantors Account	(H) Nature of Possession Symbolic / Physical/ Constructive	(Mortgagers of Property[ies]	(C) Bid Increase Amount	L'Addition	secured creditor
1	ICD Loni (493700)	(E) 12-06-2017	All the part and parcel of the Property, consisting of Flat	(A) Rs. 8.05 Lacs	12.11.2021 11:00 AM to 04:00 PM	Not Known
	Shoaib Mohd S/o Mohd. Ali Flat No. 547C Nyay Khand-III, 3rd Floor, Indirapuram,	(F) 27-12-2017	No. 547C Nyay Khand-III, 3rd Floor, Indirapuram, Ghaziabad, UP, Measuring covered Area 19.505 Sq. Mtr.,	(B) Rs. 0.81 Lac		
	Ghaziabad, U.P.	(G) Rs. 12.10 Lakh + Interest & Charges thereon	Bounded as : North - 30ft wide road at GF, South - Gallery,	(C) Rs. 10,000/-		
		(H) Physical	546C, East - 548 C, West - 550C			
2	Chikamber pur (063110) Now Sahibabad (370900) M/s Baby Sales Agency	(E) 01-05-2017	All the part and parcel of the Property consisting Shop No. L.G.E-11A ½ Of Shop Lower Ground Floor(Without -	(A) Rs. 6.00 Lacs	12.11.2021	Not Known
	Prop. Sh. Bateshwar Jha, Flat No. F-1, 1st floor, Plot No.16-17,	(F) 02-02-2018	Roof)Plot No. C-7/E, Block C, Ramprastha, Distt	(B) Rs. 0.60 Lac	11:00 AM to 04:00 PM	
	Block-M, Sector-12, Ramprastha , Ghaziabad, UP	(G) Rs. 18.44 Lakh + Interest & Charges thereon (H) Symbolic	Ghaziabad, UP., Bounded as: East - 30 Ft Wide Road & Remaining Part of the Shop (L.G.F No. 11 B), West - Gallery, North - 30 Ft Wide Road, South - Gallery & Shop	(C) Rs. 10,000/-	]	
			All the part and parcel of the Property consisting of Flat No F-1 Ist Floor, Plot No. 16 A & 17, Block M, 3rd B Sector	(A) Rs. 15.00 Lacs	12.11.2021 11:00 AM to 04:00 PM	Not Known
			12, Ramprastha, Distt Ghaziabad, Boundry of plot No. 16A : East - Railway Line, West - 30 Ft Wide Road, North - Plot No 16, South - Plot No 17 Boundry of Plot No. 17: East - Railway Line, West - 30ft Wide Road, North - Plot No 16A, South - Plot No 18	(B) Rs. 1.50 Lac		
				(C) Rs. 10,000/-		
3	AKP Vijay Nagar, Ghaziabad (364600) Smt. Kavita Kulshrestha W/o Sh. Sanjeev Kulshrestha & Sh. Sanjeev Kulshrestha S/o sh. Jagdish Chandra House No. R-157 (Duplex), Sector-12, Pratap Vihar,	(E) 15-09-2018	All the part and parcel of the Property, consisting at	(A) Rs. 62.73 Lacs	26.11.2021 11:00 AM to 04:00 PM	Not Known
		(F) 28-03-2019	House No. R- 157 (Duplex), Sector-12, Pratap Vihar, Ghaziabad, UP, Measuring, measuring – Total Area 99.26 Sq. Mtr. (covered area 113.63 Sq. Mtr.) standing in	(B) Rs. 6.28 Lac		
		(G) Rs. 10.92 Lakh + Interest & Charges thereon		(C) Rs. 10,000/-		
	Ghaziabad, UP, Guarantor: Sh. C.P. Singh S/O Sh. Hari Chand Singh, R-117, Sector-9, Pratap Vihar, Ghaziabad, U.P.	(H) Symbolic	the name of Smt. Kavita Kulshrestha, Bounded as under:- East:- Road, West:- House No.R-170, North- House No. R-156, South:- House No. R-158			
4	Loha Mandi (613300)	(E) 05-11-2019	All the part and parcel of the Property consisting of Plot	(A) Rs. 36.00 Lacs	26.11.2021 11:00 AM to 04:00 PM	Not Known
	Lokesh Kumari W/o Sh. Mukesh Kumar & Sh. Mukesh Kumar S/o Sh. Bishamber Singh	(F) 30-01-2020	No. 186-A, Sanyog Nagar, Village – Sadarpur, Ghaziabad, UP, measuring 73.16 sq. Mtr., Bounded as : East - Plot No. 185, West - Road, North - Plot No. 187, South	(B) Rs. 3.60 Lac		
	A-1/685, Gaur Homes Govindpuram, Ghaziabad, UP	(G) Rs. 26.78 Lakh + Interest & Charges thereon		(C) Rs. 10,000/-		
	Guarantor:- Sh. Ravinder Kumar, C/O Nagar Dairy, A-11, Govindpuram (Commercial Market- Hapur Road) Ghaziabad, UP	(H) Physical	Plot No. 186	(0) No. 10,000		
5	Ambedkar Marg, Ghaziabad(370300)	(E) 13-07-2018	All the part and parcel of the Property, consisting of Flat	(A) Rs. 65.25 Lacs	26.11.2021 11:00 AM	Not Known
	Smt. Sangeeta Singhal W/o Sh. Manish Singhal & Sh. Manish Singhal S/o Late Sh. Mukut Lal & M/S Shri Sidhi	(F) 15-07-2019	No. A-1402, 14th Floor, Block-A, Tower Daffodil-1, (Without roof rights), situated in Residential Grop	(B) Rs. 6.26 Lac		
	Vinayak Enterprises Prop. Mrs. Sangeeta Singhal, A-1402.	(G) 49.20 Lakh + Interest & Charges thereon	Housing complex at "Fortune Residency" at NH-58, Raj	(C) Rs. 10,000/-	to 04:00 PM	
	14th Floor, Block-A, Tower Daffodil-1, Fortune residency, Raj Nagar Extn. NH-58, Ghaziabad, UP, <u>Also at</u> : KC-140, Kavi Nagar, Block-C, Ghaziabad, UP	(H) Symbolic	Nagar Extension, Village Noor Nagar, Ghaziabad, UP, Measuring super area 1690 sq. ft. and covered area1292 sq. ft., standing in the name of Sangeeta Singhal & Sh. Manish Kumar Singhal	(a) nor relevant		
6	Loha Mandi (613300)	(E) 01-10-2020	All the part and parcel of the Property, consisting of Entire First Floor(Without roof right) Part of property No.	(A) Rs. 8.00 Lacs	26.11.2021	Not Known
	M/s Sanya Traders Prop. Shri Mohinder Pal Dang.	Traders Prop. Shri Mohinder Pal Dang, (F) 04-09-2021 En		(B) Rs. 0.80 Lac	11:00 AM	
	86, Chanderpuri, Ghaziabad, UP	(G) 10.47 Lakh + Interest & Charges thereon	54, out of Rect. No. 12, Killa No.7, Chandu Park, Village:- Khureji Khas, illaqua- Shahdara, Delhi, Measuring 20.90	- And	to 04:00 PM	
		(H) Symbolic	Sq. Mtr. Standing in the name of Sh. Mohinder Pal Dang, Bounded as : East - Road, West - Property of Others, North - Property of Others, South - Property of Others.	(C) Rs. 10,000/-		

### mentioned in the notice being Rs.6,97,361/- (Rupees Six Lakh Ninety Seven Thousand Three Hundred Sixty One Only) along with accrued interest within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section 4 of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 18th Day of October of the Year 2021. The Borrowers/ Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Janpath, New Delhi Branch for an amount of Rs.6,97,361/- (Rupees Six Lakh Ninety Seven Thousand Three Hundred Sixty One Only) plus interest there upon from 05.03.2021. The borrower's attention is invited to provisions of sub-

section (8) of section (13) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Owner of Property: 1. Smt. Shakuntala W/o. Puran Chand 2. Smt. Mithilesh W/o. Krishan Murari

#### **Details of Property:**

Property No.A-1-9, Khasra No.19	34 min, Krishna Vihar Colony,
Behta Hajipur, Pargana-Loni,	Tehsil & DisttGhaziabad
(U.P.)-201102 Boundaries of Pr	operty:
North: 40 Feet Road	South: Other Property
East: Other Property	West: 14 Feet Road
DATE: 18/10/2021	Authorised Officer Central Bank of India
PLACE: GHAZIABAD	Central Balik Of Illula

тата	TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Address : 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013	DEMAND NOTICE
	Branch Address : 7th Floor Videocon Tower, Jhandewalan Exte New Delhi -110055, India	nsion,

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

- To.
- 1. M/s G. LAL ENTERPRISES, Through its Proprietor,
- 11/E/82E, PRADEEP VIHAR, NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282006

ALSO AT: 10/122E, KATRA BAJEER KHAN, CHEENI KA ROZA, MAHARANI KA MAKAAN, AGRA, UTTAR PRADESH-282010

- 2. SATISH KUMAR KASHYAP alias SATISH KUMAR, 11E/82E, PRADEEP VIHAR, NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282006
- 3. JAI KISHAN KASHYAP, 11E/82E, PRADEEP VIHAR, NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH- 282006
- SUDHA, 11E/82E, PRADEEP VIHAR.
- NAGLA RAMBAL, NEAR MANDI SAMITI, FIROZABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282006

Dear Sir/Madam.

A sum of Rs.67,19,837/- (Rupees Sixty Seven Lakhs Nineteen Thousand Eight

#### BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE:

1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions

2. The properties are being sold on ""AS IS WHERE IS BASIS"" and ""AS IS WHAT IS BASIS"" and ""WHATEVER THERE IS BASIS".

3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

4. The sale will be done through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com for Sr. No. 1 & 2 on 12-11-2021 & Sr. No. 3 to 6 on 26-11-2021

5. For further details and complete Terms & Conditions of the sale., please refer : www.ibapi.in , www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app.

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

#### Date: 22-10-2021. Place : Ghaziabad





#### Sh. Mukesh Kumar Gupta, 8283810870 (AUTHORIZED OFFICER), PUNJAB NATIONAL BANK



Hundred and Thirty Seven Only) is due to the Tata Capital Financial Services Ltd (hereinafter referred as "TCFSL") in Loan Account Numbers TCFLA0370000010878943 & TCFLA0370000011112582 (Restructured Loan Account 21781375) as on 19.10.2021 with interest under the Home Equity (LAP) loan granted to you by TCFSL on 31/07/2020 & 23/12/2020 (Previous Loan Agreement executed on 31.03.2019). In spite of our repeated requests, you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account which has been classified as N P A Account on 04-07-2021. As per RBI guidelines pursuant to your default in repaying TCFSL's dues. Myself, exercising the powers of the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued a notice dt: 19.10.2021 under Section 13 (2) of the aforementioned Act calling upon you to discharge the said debt amounting Rs. 67,19,837/- with interests and costs within 60 days of the notice, failing which the TCFSL shall exercise all or any of the rights detailed u/ Sec 13(4) of the above Act including enforcement of the security interest created by you in favour of the TCFSL over the property described below.

#### Schedule of the Property

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NUMBER 22, AREA ADMEASURING 133,33 SQUARE YARDS, I.E., 111.48 SQUARE METERS, KHASRA NO.2063, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, SITUATED AT PRADEEP RAM VIHAR, NAGLA RAMBAL, MAUZA NARAICH, TEHSIL ETMADPUR AND DISTT, AGRA, UTTAR PRADESH-282006, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED REGISTERED ON 18.10.2017. EXECUTED IN FAVOR OF SATISH KUMAR. BOUNDED AS: NORTH : ROAD 28 FT' WIDE, SOUTH : OTHER, WEST : PART OF PLOT NUMBER 22, EAST : PLOT NUMBER

With a view to ensure efficacious service of the Demand Notice dated 19.10.2021, we are hereby effecting service of the said Notice vide the present publication. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability within 60 days of this notice failing which the TCFSL will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets. Sd/- Regards. Authorized Officer

Tata Capital Financial Services Ltd.

Chandigarh 🦪



#### जनसत्ता, 24 अक्तूबर, 2021 5

## बिजली न होने से मोमबत्ती की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार ठाणे, 23 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक परिवार को अपने परिजन का शवदाहगृह में अंतिम संस्कार, मोमबत्ती की रोशनी में करना पड़ा, क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। मृतक के एक रिश्तेदार ने शनिवार को यह जानकारी दी।

रात को विद्रलवाड़ी शवदाहगृह में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार की एक वृद्ध महिला का खडगोलवली में बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनके परिजन शव को लेकर शवदाहगृह गए। वहां बिजली नहीं होने से घुप अंधेरा था। परिजनअंतिम संस्कार में देरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ मोमबत्तियां खरीदीं और उसकी रोशनी में अंतिम संस्कार किया गया।

# भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ अधिकारी, वकील की जमानत याचिकाएं खारिज

### नई दिल्ली, 23 अक्तूबर (एजंसी)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यरो (सीबीआइ) के अधिकारी अभिषेक तिवारी और एक वकील की जमानत

याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन लोगों को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच एजंसी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के कथित रूप से लीक होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है। न्यायालय ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि अदालत

को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा. बल्कि अगर संबतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है, तो जमानत से इनकार किया जा सकता है।

न्यायमुर्ति योगेश खन्ना ने कहा, 'मौजुदा प्राथमिकी में आरोप सब्तों के साथ छेड़छाड़ पर आधारित है, इस प्रकार जांच के प्रारंभिक चरण को देखते हुए, मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए तैयार नहीं हं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।'

अदालत ने तिवारी और नागपुर के वकील आनंद दिलीप डागा की जमानत याचिकाओं पर एक साझा आदेश पारित किया।

सीबीआइ ने अपने सब-इंस्पेक्टर तिवारी, वकील डागा, जो देशमुख के वकील के रूप में काम कर रहे थे, और अन्य के खिलाफ रिश्वत सहित विभिन्न आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया था।

राष्ट्र

सीबीआइ ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपियों की रिहाई निष्पक्ष जांच के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सीबीआइ ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं और सबतों के साथ छेडछाड कर सकते हैं।

तिवारी और डागा ने निचली अदालत के जमानत याचिकाएं खारिज करने संबंधी आदेश को चुनौती दी थी।

## जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनस एक्का की जमानत के मामले में केंद्र से आठ नवंबर तक जवाब मांगा है। एक्का को धन शोधन से जुडे एक मामले में अदालत से सात साल कैद की सजा हो चुकी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनजी और

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एक पीठ ने एक्का की तरफ से गंभीरता का हवाला देते हुए ही दाखिल की गई अपील पर केंद्र जमानत देने से इनकार किया

को नोटिस जारी किया है। एक्का था। झारखंड की रांची स्थित धन ने अपील में झारखंड हाईकोर्ट शोधन निरोधक कानून की के आदेश को चुनौती दी है।

झारखंड के पूर्व मंत्री की याचिका

पर केंद्र से मांगा जवाब

झारखंड के पूर्व मंत्री ने सात साल कैद और दो करोड़ हाईकोर्ट के 24 अगस्त 2020 के उस आदेश का चुनौती दी है जिसमें एक्का को जमानत देने से इनकार कर दिया था। एका को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अदालत ने दोषी

ठहराया था। हाईकोर्ट ने अपराध की को गैर कानुनी तरीकों से सफेद

विशेष अदालत ने एक्का को रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। एक्का के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के साथ ही प्रवर्तन निदेषालय ने जांच की थी।

अदालत ने एक्का को बीस करोड रुपए से ज्यादा कालेधन करने का दोषी मानते हुए यह सजा दी गई थी।

शाखा कार्यालयः १०३–१०४, प्रथम तल, २ई / २३, इंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110055

# कोरोनारोधी टीका : कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री

## नई दिल्ली, 23 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड–19 रोधी टीके बनाने वाली सात भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब भारत ने दो दिन पहले ही अपने नागरिकों को टीकों की 100 करोड़ ख़ुराक देने की उपलब्धि हासिल की।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस

दौरान टीकों को लेकर शोध सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से इस मुलाकात में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, बॉयोलाजिकल ई, जेन्नोवा बायोफार्मा और पैनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजुद थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती पवार ने भी बैठक में शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक टीकों की 101.30 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। बैठक के बाद एक वीडियो संदेश में जाइडस कैंडिला के पंकज पटेल ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने टीके विकसित किए, उसके लिए सबसे बड़े कारक प्रधानमंत्री थे।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने शुरू से हमें प्रोत्साहित किया इनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और है। उन्होंने कहा कि आप करो, सरकार आपके साथ है। आपको जहां भी असुविधा होगी, सरकार आपको सहयोग करेगी। इसी वजह से हम टीके विकसित कर पाए।'



Cent Bank सन्टबैक फोन नं.: 011 - 23629210, 23529210, Home Finance Limited वेबसाईट: www.cbhfl.com | CIN: U65922MP1991PLC006427 Subsidiary of Central Bank of India / क (नियम 8 (6) नीलामी बिकी – 29.11.2021 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतू नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों / जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति ज प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्न वर्णित ऋणी व जमानतदारों से सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, प्रतिभूति लेनदार की वसूली हेतु दिनांक 29.11.2021 को नीलाम किया जाएगा। प्रतिभूति–दाता, आरक्षित मूल्य व अग्रिम धन राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगाँ। ऋणी/सह—ऋणी घरोहरा राशि संपत्तियो का विवरण बंधकर्ता का नाम व तिथि को बकाया राशि (रू.) की तिथि जमा (रू.) खाता संख्या (জ.) 10% िश्री गौरव गुप्ता एवं संपत्ति खसरा नं. 129, प्रथम 18.03.2021 62,50,000.00 6,25,000.00 14.01.2020 श्रीमति शलिनी गुप्ता मंजिल, कवि नगर, गाजिया बाद 49,30,236.00 (भौतिक) खाता क्रं:--(उ.प्र.), चौहद्दीः पूर्वः संपत्ति नं + ब्याज एवं सभी अन्य खर्चे यदि कोई राशि 00603010000072 130, पश्चिमः संपत्ति नं. 128, उत्तरः 40 फीट चौडा. दक्षिणः सर्विस लेन 12 जमा की गई हो) फुट चौडा 19.04.2016 09.09.2021 39,16,450.00 3,91,645.00 2. श्री वरुण शर्मा और मकान नंबर 2/468-ए-1, तेलीवाड श्रीमती दीपा शर्मा खसरा नंबर 642, ग्राम चंद्रावली, 34,53,472.00 (भौतिक) + ब्याज एवं सभी खाता नंबरः शाहदरा, तहसील और जिला दिल्ली अन्य खर्चे 00602080001522 -110032 - यदि कोई राशि संपत्ति की सीमाएं पूर्व अन्य संपत्ति, जमा की गई हो) पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः गली फीट चौडी, दक्षिणः अन्य संपत्ति 3. श्री राम कुमार और 306. डीडीए जनता फ्लेट. तीसर् 06.01.2020 20.03.2021 6,39,000.00 63,900.00 श्रीमती सरोज देवी मंजिल, पॉकेट-3, सेक्टर-बी-4, (भौतिक) 6,12,570.00

सूचना	
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीव अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियमों 29 एवं 47 के अनुसार सूचित किया जाव कि <b>30 सितम्बर, 2021</b> को समाप्त तिमाही एवं छमाही के <b>अनअंकेक्षित ए</b>	ता है
एवं समेकित वित्तिय परिणामों पर कम्पनी द्वारा मंगलवार, 2 नवम्बर, 2 को विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। अन्य जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.ievoeeinfratech.c	

जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <u>www.jaypeeinfratech.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईटः www.nseindia.com व www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए (कॉर्पोरेट इन्साल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के अर्न्तगत कम्पनी) अनुज जैन अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल आई.पी. पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-स्थान : नोएडा तिथि : 23 अक्तबर 2021 P00142/2017-18/10306

## 🗊 टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड **ТАТА** सातवीं मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवालन एक्सटेंशन, ब्लॉक-ई, दिल्ली-110055.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत) टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित **सूचना प्राप्ति** दिनांक 22.05.2021 से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रूटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) संपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है । ऋणी(याँ ) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह टाटा **कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा ।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	दिनांक के अनुसार राशि	आधिपत्य की दिनांक
5851377 & 21800945	<ol> <li>मेसर्स केसल 9 रेस्टोरेन्ट्स प्रा. लि.</li> <li>मेसर्स नाईट कमर्शियल मेनेजमेन्ट प्रा. लि.</li> <li>पता : बी-45-47, प्रथम मंजिल, शिव महल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001,</li> <li>स्व. श्री प्रदीप के दिक्षित उर्फ प्रदीप कुमार दिक्षित के कानूनी उत्तराधिकारी एवं</li> <li>मीना दिक्षित, पता : ए-51, कल्पतरू हेबिटेट, डॉ. एसएस राव रोड, परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र 400012</li> </ol>	<b>रू</b> 1,23,03,695/- दिनांक 22.05.2021 को	21.10.2021 (भौतिक आघिपत्य)
अहमद कि	भा <b>स्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण</b> ः फ्लेट नंबर डवाई सीजीएचएस लिमिटेड, प्लाटनं. 12-ए, सेक्टर : पूर्व : पैसेज, पश्चिम : खुला, उत्तर : खुला, दक्षिण : वि	-7, द्वारका, नई।	
दिनांक : स्थान : वि	२ 1, 10, 20 2 1 रेल्ली कृते टाटा केपिटल प	हस्ता./-प्राधिदृ गईनांशियल सर्वि	
	सूरज इंडस्ट्रीज लि		
	Therefore I 2604211D1002DI CO14	6701	
पंजीव	सीआईएन : L26943HP1992PLC016 त कार्यालय : प्लॉट नं. 2, फेज III, संसारपुर टेरेस, जिला क		I–173212
	सीआईएन : L26943HP1992PLC016 त कार्यालय : प्लॉट नं. 2, फेज III, संसारपुर टेरेस, जिला क कार्यालय : एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिय	ांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	
कॉर्पोरेट	त कार्यालय : प्लॉट नं. 2, फेज III, संसारपुर टेरेस, जिला क	ांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 1, फेज–II, नई दिल्ल	ती–110020

क्र. सं.		લંબાયા હયતાણ	माग सूचना की तिथि	कब्जा करन का तिथि	अचल सम्पात्त(या)/प्रांतभूत आस्ति(या) का विवरण
1.	श्री गंगीरेड्डी रवि शंकर रेड्डी (कर्जदार) श्रीमती एरगुला वेंकट नवीना (सह–कर्जदार) ऋण खाता सं. 640042832 तथा 641091596	31 मार्च, 2021* तक रु. 43,00,588/- तथा रु. 2,21,973/- कुल राशि रु. 45,22,561/- (रुपये पैंतालीस लाख बाईस हजार पांच सौ इकसठ मात्र)	~ ·	28 अक्टूबर, 2021 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 1 भाग पर मकान का सम्पूर्ण भाग, सर्वे सं. 432 तथा 433/ए में, माप 154 वर्ग गज अथवा 128.74 वर्ग मीटर, 1250 वर्ग फीट के बिल्ट अप एरिया में निर्मित, आर.सी.सी. भूतल, ''रोज गार्डन'', रामपल्ली ग्राम तथा ग्रामपंचायत, कीसरा मंडल, मेदचाल मलकागिरि जिला में स्थिथ, तथा सीमाएँ : उत्तर : प्लॉट नं. 2, दक्षिण : प्लॉट नं. 1 भाग, पूर्व : प्लॉट नं. 14 एवं 15, पश्चिम : 30 फीट चौड़ी सड़क।

भगतान तथा/अथवा वसली की तिथि तक प्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय लागतों, प्रभारों आदि सहित।

पंजाब नैशनल बैंक

किन्त, उपर्यक्त कर्जदार/रों/विधिक उत्तराधिकारी(यों) तथा विधिक प्रतिनिधि(यों) द्वारा बकाया राशि का पनर्भगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा विशेष रूप से उपर्युक्त कर्जदार/रों/विधिक उत्तराधिकारी(यों) तथा विधिक प्रतिनिधि(यों) तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि एचडीएफसी के अधिकृत प्राधिकारी/यों ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में उपर्यक्त वर्णित अचल सम्पत्ति/प्रतिभुत आस्ति पर उपर्युक्त तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से उपर्यक्त कर्जदार/रों/विधिक उत्तराधिकारी(यों) तथा विधिक प्रतिनिधि(यों) को तथा जनसामान्य को उपर्यक्त अचल सम्पत्ति/प्रतिभत्त आस्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के साथ कोई संव्यवहार हाउसिंग डेवलपमें फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बंधक का विषय होगा। प्रतिभत आस्तियों को छडाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार( रों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 23 अक्टूब स्थान : हैदराबाद अधिकृत प्राधिकार्र पंजीकत कार्यालय : रेमन हाउस. एच.टी. पारेख मार्ग. 169. बैकबे रीक्लेमेशन. चर्चगेट. मम्बई-40002

खाता संख्या नरेला, दिल्ली –110040, ब्याज एवं सभी अन्य खुचे 00602070001378 संपत्ति की सीमाएं पूर्व फ्लैट संख्या – यदि कोई राशि 305, पश्चिम फ्लैट संख्या 307, उत्तर जमा की गई हो) प्रवेश, दक्षिणः खुला

नियम व शर्तेः (1) नीलामी जहाँ है, जैसा है, और जो कुछ भी है के आधार पर की जा रही है। (2). प्रतिभूति सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नई नीलाम किया जाएगा। (3). इच्छूक क्रेता / बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) / आरटीजीएस / ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से धरोहर राशि (ईएमडी) राशि (आरक्षित मल्य के 10% से कम नहीं) के साथ एक बंद लिफाफे में निधारित निविदा फार्म में अपनी निविदा प्रस्तत करनी होगी। सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, **दिल्ली शाखा** के उपरोक्त पते पर दिनांक 29.11.2021 को दोपहर 01.00 बजे से पहले **सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड**, **दिल्ली** शाखा के पक्ष में जमा करानी होगी। (4). सीलबंद लिफाफे को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिल्ली शाखा में पात्र / उपलब्ध इच्छूच बोलीदाताओं की उपस्थिति में दिनांक 29.11.2021 को सांय 3.00 बजे खोला जायेगा। जिन्होनें नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए डिमाण्ड डाफ्ट (राष्ट्रीयकुर बैंक)/आरटीजीएस/ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से दिनांक 29.11.2021 को सांय 3.00 बजे तक ईएमडी राशि जमा करवाई है। (5). प्राधिकृत अधिकारी की उत्तम जानकरी के अनुसार सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं है। फिर भी इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले प्रभारों, सीमाओं, सम्पत्ति के शीर्षक से सम्बंधित खंय कि स्वतन्त्र जानकारी तथा निरीक्षण करके स्वंय को संतुष्ट करना चाहिए। कम्पनी किसी भी प्रभार तथ सम्पत्ति पर बकाया जो कि नीलामी दिनांक के बाद में कम्पनी की जानकारी में आता है तो कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूति लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (6), बोली जमा कराने से पहले सम्पत्ति और सीमांकन के बारे में निरीक्षण करना और संतुष्टि करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के निरीक्षण में रूचि रखने वाले बोलीदाताओं को दिनांक **22.11.2021, दोपहर 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे** के बीच अनुमति होगी। **(7).** सफल बोलीदाता ∕ उच्चतम बोली लगाने वात की धरोहर राशि आंशिक बिक्री विचार के लिए रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा करने पर कोइ ब्याज देय नहीं होगा। विक्रय की पुष्टि उस क्रेता के पक्ष में की जाएगी जिसके द्वारा उच्चतम बोली लगाई जायेगी। जो प्राधिकृत अधिकारी को दी गई है ए प्रतिभूत लेनदार द्वारा जिसकी पुष्टि की जाएगी। उच्चतम बोली प्रतिभूति लेनदार/प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। (8). सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी भूगतान सहित) उसी दिन अथवा आगामी 24 घण्टे के पूर्व जमा करवाना होगा, प्राधिकृत अधिकारी को शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के 15 दिवस के भीतर करवायेगा तथा यदि बोलीदाता शेष राशि जमा करवाने में चुक करता है तो कम्पनी पूर्व में जमा राशि को जब्त कर लेगी तथा कम्पनी द्वारा सम्पत्ति को पूनः बेच दिया जायेगा। (9). क्रेता स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क / अन्य खर्चे आदि वैधानिक बकाया कर समायोजन खर्चे आदि स्वंय के द्वारा या अन्य के द्वारा किये गये हो को स्वंय को वहन करना होगा। (10). प्राधिकृत अधिकारी सर्वोच्च प्रस्ताव क स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बिना किसी कारण बताये नीलाम रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा | (11). सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नियम 8(6) के तहत ऋणी / जमानतदार / सम्पत्ति को भी उपरोक्त ऋण व संदर्भ में उपरोक्त वर्णित संपत्ति की बिक्री के लिए सूचित किया जाता है।

दिनांकः 23.10.2021, स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारीः सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, मोन : 8283810870, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

د من ארוים ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) .....भरोसे का प्रतीक

# अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

punjab national bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

#### प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसुची

1 1 C 1 C 100	1. मेसर्स केसल 9 रेस्टोरेन्टस प्रा. लि		1.1			142					
800945	<ol> <li>मेसर्स नाईट कमर्शियल मेनेजमेन्ट पता : बी–45–47, प्रथम मंजिल, शि</li> </ol>	प्रा. लि.	रू	21.10.2021	क्र.	शाखा का नाम	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्तियों का विवरण –	(A) आरक्षित मूल्य	नीलामी	प्रतिभूति लेनदार
\$ 21	कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001,	15776	<b>1,23,03,695</b> /- दिनांक	V-manas.	. सं.	खाते का नाम	(F) सरफासी अधिनियम 2002 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	बंधक⁄स्वामी के नाम	(B) ईएमडी	- की तिथि एवं	के संज्ञान में
1377 8	<ol> <li>3. स्व. श्री प्रदीप के दिक्षित उर्फ प्रदीप दिक्षित के कानूनी उत्तराधिकारी एवं</li> <li>4. मीना दिक्षित, पता : ए–51, कल्प</li> </ol>	0.000	22.05.2021 को	आघिपत्य)		कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	(G) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	(सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(C) बोली वृद्धि राशि	समय	ऋण भारों का विवरण
585	<ul> <li>भ, मामा (दाबल, पता : ९ – ५ ), कल्प</li> <li>डॉ. एसएस राव रोड, परेल, मुम्बई, म</li> </ul>		1.330		1	आईसीडी लोनी (493700)	(E) 12-06-2017	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति फ्लैट नं. 547सी, न्याय	(A) <b>হু. 8.05</b> লাজ্ঞ	12.11.2021	ज्ञात नहीं
सुरक्षि	त आस्तियों/अचल संपत्तियों का विव			मंजिल, रफी		शोएब मोहम्मद पुत्र मोह. अली	(F) 27-12-2017	खंड—।।, तृतीय तल, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, कवर्ड	and the second s	पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ	The second s
अहम	द किडवाई सीजीएचएस लिमिटेड, प्लाट <del>न</del>	i. १२-ए, सेक्टर	र-7, द्वारका, नई			फ्लैट नं. 547सी न्याय खंड—।।।, तृतीय तल, इंदिरापुरम. गाजियाबाद, यू.पी.	(G) रु. 12.10 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	क्षेत्रफल 19.505 वर्ग मी., थौहदी : उत्तर में — 30फीट चौडी, मूतल, दक्षिण में — गैलरी, 546सी, पूरब में — 548 सी, पश्चिम में — 550 सी	(B) रु. 0.81 लाख		
-	<b>गिमा</b> : पूर्व : पैसेज, पश्चिम : खुला, उत्तर :	खुला, दक्षिण : ।				and dialate of all	(H) भौतिक	Sterre, Saberi, Teast, Saberi, Aleasta, Soberi	(C) <b></b> . 10,000/-	04.00 बजे	
and the second se	新:21.10.2021	20	हस्ता./-प्राधि	कृत अधिकारी	2	चिकम्बरपुर (063110) अब साहिबाबाद (370900)	(E) 01-05-2017	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. एल.जी, ई—11ए ½	(A) रु. 6.00 लाख	12.11.2021	ज्ञात नहीं
स्थान	ः दिल्ली कृते	टाटा कपिटल प	फाईनांशियल सवि	सिस लिमिटेड		मैसर्स बेबी सेल्स एजेंसी	(F) 02-02-2018	दुकान लोवर ग्राउंड प्लोर (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं, सी−7 ⁄ ई, -	(B) হ্. 0.60 লাঅ	पूर्वाह 11.00	
1	सरज इंडस्ट्रं	ोज लि	मिटेड	1		प्रोप बटेश्वर झां, फ्लैट नं. एफ—1, प्रथम तल, प्लॉट नं. 16—17, ब्लॉक—एम, सेक्टर—12, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, यू,	(G) रु. 18.44 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि	ब्लॉक सी, रामप्रस्था, जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, चौहदी : पूरब में – 30फीट चौडी रोड और दुकान (एल.जी.एफ नं. 11बी) का शेष हिस्सा, पश्चिम	The design of the second second	बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	
	○					पी.	(H) सांकेतिक	में – गैलरी, उत्तर में – 30फीट चौडी रोड, दक्षिण में – गैलरी और दुकान	(C) <b></b> . 10,000/-	04.00 444	
- t	सीआईएन : L269431 जीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 2, फेज III, संस			श−173212				सम्पत्तिं का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ-1 प्रथम तल,		III MARKATIN MARKAN	
व	<b>ॉर्पोरेट कार्यालय</b> ः एफ-32/3, प्रथम तल, ओख	ला इंडस्ट्रियल एरिय	पा, फेज−II, नई दिल	ली−110020				प्लॉट नं, 16ए और 17 ब्लॉक एम, तृतीय बी, सैक्टर–12, रामप्रखा, जिला गाजियाबाद में स्थित	(A) <b>হু. 15.00</b> লাख	12.11.2021	
ई-	मेल आईडी : secretarial@surajindustrie टरभाष नं : (	es.org; वेबसाइट )1970-256414	- www.surajind	ustries.org				प्लॉट नं. १६ए की चौहदी : पूरब में — रेलवे लाईन, पश्चिम में — ३०फीट चौडी	(B) হ্. 1.50 লাস্ত	पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ	
30 सि	ुर्रमाय म. : ( तम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही		त स्टैण्डएलोन वित्त	ीय परिणामों का				रोड, उत्तर में — प्लॉट नं. १६, दक्षिण में — प्लॉट नं. १७	(C) <b></b> . 10,000/-	ৰতা বা জাবান্ধ 04.00 ৰতা	
सारांश			0	(रु. लाख में)				प्लॉट नं. 17ए की चौहरी : पूरब में — रेलवे लाईन, पश्चिम में — 30फीट चौडी रोड, उत्तर में — प्लॉट नं. 16ए, दक्षिण में — प्लॉट नं. 18	(0) 0. 10,000		
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2021	समाप्त छमाही 30.09.2021	समाप्त तिमाही 30.09.2020	3	एकेपी विजय नगर, गाजियाबाद (384800)	(E) 15-09-2018	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. आर—157 (इप्लेक्स).	(A) হ্চ. 62.73 লাख	26.11.2021	ज्ञात नहीं
			( अलेखापरीक्षित )	( अलेखापरीक्षित )		श्रीमती कविता कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री. संजीव कुलश्रेष्ठ एवं श्री.	(F) 28-03-2019	सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, कुल क्षेत्रफल 99.26 -			
1 प्र	वालनों से कुल आय (निवल)	1,495.96	1,801.59	39.29		संजीव कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री जगदीश चंद्र, मकान नं. आर-157	(G) रु. 10.92 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि	वर्ग मी. (कवर्ड क्षेत्रफल 113.63 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्रीमती कविता	(B) <b>ড. 6.28</b> লাস্ত	पूर्वांक 11.00 बजे से अर्पांझ	
	वधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा	81.88	85.13	(8.29)		(डुप्लेक्स), सेक्टर—12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी. गारंटर: श्री सी.पी. सिंह पुत्र श्री हरि चंद सिंह, आर—117,	(H) सांकेतिक	कुलश्रेष्ठ के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में — सड़क, पश्चिम में — मकान नं. आर—170, उत्तर में — मकान नं. आर—156, दक्षिण में — मकान नं. आर—158	(C) रु. 10,000/-	04.00 बजे	
Hard -	साधारणों मदों से पूर्व) निवल लाभ/(हानि)	01.00	05.40	(2.22)		सैक्टर–9, प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू.पी.	••••••••				
	र पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/ अथवा साधारणों मदों के पश्चात) निवल लाभ/ (हानि)	81.88	85.13	(8.29)	4	लोहा मंडी (613300)	(E) 05-11-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 186—ए, संयोग नगर,	(A) रु. 36.00 लाख	26.11.2021	ज्ञात नहीं
<u>4</u> क	र पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा	81.88	85.13	(8.29)		लोकेश कुमारी पत्नी श्री मुकेश कुमार एवं श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री बिशम्बर सिंह, ए—1 ⁄ 685, गौर होम्स गोविंदपुरम,	(F) 30-01-2020	<ul> <li>गाँव-सदरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 73.16 वर्ग मी., चौहदी :</li> <li>पूरब में - प्लॉट नं. 185, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - प्लॉट नं. 187, दक्षिण</li> <li>में - प्लॉट नं. 186</li> </ul>	(B) रु. 3.60 लाख	पूर्वाह 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	
	साधारणों मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि)					पुत्र आ विशेश्वर सिंह, ए—17685, गोर होन्स गाविदपुरम, गाजियाबाद, यु.पी.	(G) रु. 26.78 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि		Martine company and		
1.000	वधि हेतु कुल व्यापक आय	81.88	85.13	(8.29)		गारंटर:- श्री रविंदर कुमार, C/O नागर डेयरी, ए-11,	(H) भौतिक		(C) <b></b> . 10,000/-	04.00 401	
3:	क्वेटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का कित मूल्य)	865.00	865.00	728.6		गोविंदपुरम (व्यवसायिक बाजार – हापुड़ रोड) गाजियाबाद, यूपी					
	ारक्षिति (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर) सा कि गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित है	0.00	0.00	0.00	5	अम्बेडकर मार्ग, गाजियाबाद (370300)	(E) 13-07-2018	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. ए—1402, 14वां	(A) रु. 65.25 लाख	26.11.2021	ज्ञात नहीं
	ाय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित		<u> </u>			श्रीमती संगीता सिंघल पत्नी श्री मनीष सिंघल एवं श्री मनीष सिंघल पुत्र स्वं. श्री मुकुट लाल और मैसर्स श्री सिद्धी	(F) 15-07-2019	तल, ब्लॉक-ए, डैफोडिल-1, (बिना छत्त के अधिकार के) रिहायशी	(B) रु. 6.26 लाख	पूर्वाह 11.00 बजे से अर्पाह	
	ल्य) सतत तथा असतत प्रचालन हेतु					विनायक इंटरप्राइजेज प्रो. श्रीमती संगीता सिंघल, ए–1402.	(G) रु. 49.20 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	युप हाउसिंग कॉम्पलैक्स, फॉर्च्यून रेजीडेंसी ''एनएच–58, राज नगर -		बज स अपाक 04.00 बजे	
	*वार्षिकीकृत नहीं)— बेसिक	0.05	0.97*	(0.11)*		14वां तल, ब्लॉक–ए टॉवर डैफोडिल–1, फॉर्च्यून रेजीडेंसी,	(H) सांकेतिक	एक्सटेंशन, गाँव नूर नगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, सुपर एरिया 1690 वर्ग फीट, और कवर्ड एरिया 1292 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति	(C) रु. 10,000/-	04.00 441	
	बारक डाइल्यूटेड	0.95	0.97*	(0.11)*		राज नगर एक्सटेंशन एनएच—58, गाजियाबाद, यू.पी., औरः केसी—140, कवि नगर, ब्लॉक—सी, गाजियाबाद, यू.पी.		संगीता सिंघल और श्री मनीष कुमार सिंघल के नाम पर है।			
				7		लोहा मंडी (613300)	(5) 04 40 2020	ु सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण प्रथम तल (बिना छत के	(4) = 0.00 ====	00.44.0004	
<b>टिप्प</b> णि	<b>।या ः</b> ोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा 23.10	.2021 को आयोजि	त बैठक में समीक्षा	की गई और बाद		मैसर्स सान्या ट्रेडर्स प्रोप श्री मोहिंदर पाल डांग,	(E) 01-10-2020 (F) 04-09-2021	अभ्यात को वह समस्त भाग एवं अश जाकि सम्पूर्ण प्रथम तल (बिन) छत क अधिकार के) सम्पत्ति नं. 54 हिस्सा, रैक्ट नं. 12 में से, किला नं. 7, चंद्र पार्क,	(A) হ্. 8.00 লাख	26.11.2021	ज्ञात नहीं
में नि	नदेशक मंडल द्वारा 23.10.2021 को आयोजित	अपनी बैठक में अन्	नुमोदित किया गया।			86, चंद्रपुरी, गाजियाबाद, यू.पी.	(G) रु. 10.47 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	गाँव खुरेजी खास, इलाका, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 20.90 वर्ग मी.	(B) হ্. 0.80 লাख	पूर्वाङ 11.00 बजे से अर्पाङ	
	रिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैया		ारी प्रासंगिक नियमों	के तहत निर्धारित			(H) सांकेतिक	, यह सम्पत्ति श्री मोहिन्दर पाल गर्ग के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – रोड़, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य	5 (c) = 40 000/ 04.0	04.00 बजे	
	तीय लेखा मानको (३७ एएस) के अनुसार तया ली तिमाही के दौरान कंपनी ने राजस्थान राज्य		ल्स लिमिटेड (आर	एसजीएसएम) के			N CONTRACTOR	पश्चिम म – अन्य का सम्पत्त, उत्तर म – अन्य का सम्पत्त, दाक्षण म – अन्य की सम्पत्ति	10.00		
	तर में पुरानी चुंगी, रामगंज, तारागढ़ रोड,				ಕ್	ोलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते :	1 m				
	एसजीएसएम के साथ निष्पादित समझौते के अ लिंग तथा पैकेजिंग के लिए एक बॉटलिंग इकाई				(1) हि	बेक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों ए					
(क	) लिकर संचालन (ख) व्यापार संचालन। तदनु	सार खंड रिपोर्टिंग	की जा रही है।		(2) ₹ (2) ₹	तम्पत्तियां को ''जो है जहाँ है'', ''जैसी है जो कुछ भी है'' एवं ''दायि प्राप्त वर्णित अवसनी में विविधित्व सरसित प्रवियंगनियों का विवय	पेरव रहित आधार पर" बेचा जा रहा है । ए. पाणिकन अधिकारी की सर्वभेष्ठ जानकारी के अन्यत कार्य के प्रा	है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के	निया जनाराचेर मर्थी रोगा ।		
4. पिछ गया	ली अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि से है।	तुलनीय बनाने के '	लिए पुनर्वगीर्कृत/पुन	ः व्यवस्थित किया				5, किंतु प्राव्यकृत आयकारा इस उद्यावणा में किसा जुटि, गलत बयाने या चूक क 1 और क्र.सं. 3 से 6 हेतु दिनांक 26.11.2021 को आयोजित की जाएगी	1015 2121240 101 01111		
गया	Q I	सूरज इंडस्ट्रीज	लिमिटेड के बोर्ड	के आदेशानुसार			खित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.mstcecommerce.				
		5		ह./-				के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना			
	: नई दिल्ली 23.10.2021		सू	रज प्रकाश गुप्ता प्रबंध निदेशक	दिनां	कः 22-10-2021, स्थानः गाजियाबाद		श्री मुकेश कमार	गुप्ता, 8283810870 (प्राधिकृत ः	अधिकारी), पंजा	ब नैशनल बैंक
I TALE OF L				A-1-1 1.144141	and the second se	가 가장 소설을 들어가지 않는다. 이번 이번 이번 것은 것을 하는 것을 수 있는 것은 것은 것은 것을 가지 않는다. 이번 것은 것을 가지 않는다. 이번 것은 것은 것을 가지 않는다. 이번 것은 것을 가 있는 것을 가지 않는다. 이번 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 가 있는다. 이번 것은 것은 것은 것은 것을 수 있다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 수 있다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 수 있다. 이번 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것은 것을 수 있다. 이번 것은			and the second		

www.readwhere.com

Chandigarh